



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 316]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1972/आषाढ़ 10, 1894

No. 316]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1972/ASADHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 1st July 1972

S.O. 451(E).—Whereas the Supreme Court has, in its judgment delivered on the 24th November, 1971, on the Writ Petitions filed by the manufacturers of Motor Cars in regard to the selling prices of the cars manufactured by them, directed the Central Government to review the prices of the three makes of cars manufactured in the country every six months after taking into consideration the claims submitted by the manufacturers of the said cars for increase in the prices of the cars manufactured by them;

And whereas the Central Government has considered the claims submitted by the manufacturers of the said cars for increase in the prices of the said cars;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Cars (Distribution and Sale) Control (Second Amendment) Order, 1972.

(2) It shall come into force on the 1st of July, 1972.

2. For Schedule I to the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE I

Name of manufacturer	Description of motor cars	Price
1. Messrs Hindustan Motors Ltd., Uttarpara, District Hooghly, (West Bengal).	Ambassador	Rs. 16,898
2. Messrs Premier Automobiles Ltd., Construction House, Ballard Estate, Bombay.	Fiat 1100-D or Premier-President	Rs. 16,117
3. Messrs Standard Motor Products of India Limited 29, Mount Road, Madras.	Standard Herald	Rs. 16,539

Explanation.—The prices specified, above are ex- factory prices inclusive of dealers' commission and do not include Excise duties, Central Sales Tax and local taxes, if any and transportation charges. These prices will be operative upto 31st December 1972.

[No. F. 5(8)/72-AEI (I)]

B. B. LAL, Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1972

क्रा० प्रा० 451(अ).—यतः उच्चतम न्यायालय ने, मोटर कार के विनिर्माताओं द्वारा उनके द्वारा विनिर्मित कारों की विक्रय कीमत के सम्बन्ध में दी गई रिट याचिका पर, अपने 24 नवम्बर, 1971 को दिए गए निर्णय में केन्द्रीय सरकार को, देश में विनिर्मित तीन प्रकार की कारों की कीमत, कारों के विनिर्माताओं द्वारा, उनके द्वारा विनिर्मित कारों की कीमत में वृद्धि के लिए प्रस्तुत किए गए दावों पर विचार करने के पश्चात्, प्रत्येक छः मास के बाद पुनर्विलोकन करने का निदेश दिया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त कारों के विनिर्माताओं द्वारा उक्त कारों की कीमत में वृद्धि के लिए प्रस्तुत दावे पर विचार कर लिया है ।

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) यह आदेश मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) यह 1 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची-1 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची 1

विनिर्माता का नाम	मोटर कार का विवरण	कीमत
(1) मैमर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, उत्तरपाड़ा, जिला हुगली, (पश्चिमी बंगाल) ।	एम्बैसेडर	16,898 रु०
(2) मैमर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, कंस्ट्रक्शन हाउस, बैलर्ड एस्टेट, बम्बई ।	फियट 1100-डी या प्रीमियर-प्रेसीडेंट	16,117 रु०
(3) मैमर्स स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, 29. माउंट रोड, मद्रास ।	स्टैंडर्ड हेरल्ड	16,539 रु०

स्पष्टीकरण:—उपयुक्त विनिर्दिष्ट कीमत कारखाने द्वार पर कीमते हैं, जिनमें व्यवहारी का कमीशन सम्मिलित है और उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय विक्रय कर और स्थानीय कर, यदि कोई हो, और परिवहन प्रभार सम्मिलित नहीं है। ये कीमतें 31 दिसम्बर, 1972 तक प्रवृत्त रहेंगी ।

[सं० फा० 5(8)/72-ए०ई०आई० (1)]

बी० बी० लाल, सचिव ।

